



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ 1937 (श10)
(सं0 पटना 775) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2015

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

अधिसूचना
22 जून 2015

सं0 07/नि. (विधि) सं0व0-21/2002-3721—निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 4692 दिनांक 03.09.2009 के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दी पीपुल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुजफ्फरपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री कुमार का स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका है।

और चूँकि बैंक के परिसमापन कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापक एवं सहायक परिसमापक की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

अतः मैं अजय कुमार चौधरी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 की धारा-44(1) एवं बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम-64(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4692 दिनांक 03.02.2009 के क्रम में अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दी पीपुल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. का पदेन परिसमापक नियुक्त करता हूँ। साथ ही, उनके सहायतार्थ सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को पदेन सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक और सहायक परिसमापक समिति के परिसमापन की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
अजय कुमार चौधरी,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 775-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>